



## The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Jharkhand

### Press Release

रांची

12/06/2019

### **इकफ़ाई विश्वविद्यालय में पीएचडी कार्यक्रम के 9वें बैच के उद्घाटन के अवसर पर आईयूजे जर्नल ऑफ मैनेजमेंट विमोचन**

कार्यशील पेशेवरों के लिए पीएचडी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (पार्ट टाइम) के 9 वें बैच का उद्घाटन इकफ़ाई विश्वविद्यालय, झारखंड में किया गया जिसमें छात्र जम्मू और कश्मीर और सिक्किम सहित भारत के सभी प्रमुख राज्यों से नामांकन लिए हैं। छात्रों में 40% छात्र महिलाएं हैं। सभी छात्र प्रतिष्ठित संगठनों जैसे पीडब्लूसी, आरबीआई, एसबीआई, विप्रो, भारतीय सेना, भारतीय खाद्य निगम, सीएसआईआर लैब्स, ओसाम मिल्क, एमिटी यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, सिक्किम आदि में काम कर रहे हैं।

इस मौके पर आईयूजे जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, जून 2019 के अवसर पर जारी किया गया। जिसमें डॉ0 डीडी चौधरी को आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, त्रिपुरा से "त्रिपुरा में गरीबी के बहु आयामी विश्लेषण" पर उनके विचार उत्तेजक लेख के लिए बेस्ट पेपर अवार्ड दिया गया।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओ आर एस राव ने सभी स्कालरों का स्वागत करते हुए कहा, "हमें खुशी है कि हमारा विश्वविद्यालय पीएचडी कार्यक्रम के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले पेशेवरों के उत्कृष्ट प्रोफाइल को आकर्षित करता है।" प्रो राव ने कहा की पहले के बैचों के साथ हमारे अनुभव से पता चला है कि कामकाजी पेशेवर, उद्योग और समाज की प्रासंगिकता के विषयों पर शोध करने के इच्छुक हैं।

स्कालरों को संबोधित करते हुए, सेल एमटीआई के पूर्व महाप्रबंधक, डॉ0 हरि हरन ने कहा, की "वर्तमान ज्ञान की दुनिया में, स्कालरों को पता होना चाहिए कि कैसे ज्ञान ओर अज्ञान में अंतर करना है। डॉ0 एस किशोर पूर्व ईडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट ने कहा, "जीवन में किसी चीज को हासिल करने की आपकी आंतरिक इच्छा आपके पीएचडी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा होगी।" डॉ। बीके झा, एचओडी, कृषि विस्तार विभाग, बीएयू ने छात्रों को लाइफ-लॉन्ग लर्निंग को आगे बढ़ाने की सलाह दी।

समारोह का धन्यवाद ज्ञापन रजिस्ट्रार डॉ0 बीएम सिंह द्वारा प्रस्तावित किया गया।

=====